

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032023-244151
SG-DL-E-04032023-244151असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/ फाल्गुन 12, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 504
No. 64]	DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/ PHALGUNA 12, 1944	[N. C. T. D. No. 504

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 मार्च, 2023

सं.फा. 9(7)/एल एंड बी/एल.ए/2016/7703.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740 (ई) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस०ओ० 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन तथा अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दक्षिण-पश्चिम राजस्व जिले के ग्राम भरथल की भूमि जिसका उपयोग पहले ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण हेतु किया जा चुका है, के अपेक्षित भाग का अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखते हैं। इस प्रयोजनार्थ अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना सं० एफ.8(2)/9/2015/एल एंड बी/एल.ए/2373 के द्वारा सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप में चिह्नित मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली,

लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006 को भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं।

यह मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गम्भीर, उप-सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd March, 2023

F. No. 9(7)/L&B/LA/2016/7703.—In exercise of powers conferred by sub rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the School of Human Ecology, Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F8(2)/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13th June 2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land which has already been utilized in road by Delhi Development Authority and intends to acquire the requisite parcel of land in village Bharthal of South West revenue district.

The School of Human Ecology, Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of publication of this notification in the official gazette.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GAMBHIR, Dy. Secy.